



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 51-2023]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023  
(28 मार्गशीर्ष, 1945 शक)

## विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सांकांनि० 27/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 — हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023.	767—770
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनःप्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

**भाग-III****हरियाणा सरकार****सहकारिता विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 18 नवम्बर, 2023

**संख्या सांका०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2023.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1989 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1989 में, परिशिष्ट ख में,—

(i) मुख्य कार्यालय शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 6 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
6	चालक	(i) 10+2; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) विभाग द्वारा संचालित चालन परीक्षा पास होनी; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; (vii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।  स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) 10+2; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।";

(ii) अधीनस्थ कार्यालय शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
"4	चालक	<p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;</p> <p>(iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए;</p> <p>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;</p> <p>(v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) मैट्रिक;</p> <p>(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;</p> <p>(iii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) विभाग द्वारा संचालित चालन परीक्षा पास होनी;</p> <p>(v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;</p> <p>(vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;</p> <p>(vii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;</p> <p>(iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;</p> <p>(v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;</p> <p>(vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।”।</p>

डा० राजा सेखर वुंदरू,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
सहकारिता विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**COOPERATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th November, 2023

**No. G.S.R. 27/Const./Art. 309/2023.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Rules, 1989, namely:-

**1.** These rules may be called the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service (Amendment) Rules, 2023.

**2.** In the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Rules, 1989, in Appendix B,-

- (i) under heading Head Office, under columns 1, 2, 3 and 4 against serial number 6, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"6"	Driver	(i) 10+2; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education.	<b>By Promotion—</b> (i) Matric; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old; (iii) Three years experience as Group-D employee; (iv) Should have passed driving test conducted by the department; (v) Should not be colour blind; (vi) Should not be above fifty years in age; (vii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education. <b>By Transfer or deputation—</b> (i) 10+2; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old; (iii) Three years experience as Light Vehicle Driver; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education; (vi) If not already working on the post of Driver then his age should not be more than fifty years.”;

- (ii) under heading SUB-OFFICES, under columns 1, 2, 3 and 4 against serial number 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
"4"	Driver	(i) 10+2; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the	<b>By Promotion—</b> (i) Matric; (ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old; (iii) Three years experience as Group-D

		<p>Haryana Staff Selection Commission;</p> <p>(iv) Should not be colour blind;</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education.</p>	<p>employee;</p> <p>(iv) Should have passed driving test conducted by the department;</p> <p>(v) Should not be colour blind;</p> <p>(vi) Should not be above fifty years in age;</p> <p>(vii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education.</p> <p><b>By Transfer or deputation—</b></p> <p>(i) 10+2;</p> <p>(ii) Should have a valid driving licence of light vehicle at least three years old;</p> <p>(iii) Three years experience as Light Vehicle Driver;</p> <p>(iv) Should not be colour blind;</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Education;</p> <p>(vi) If not already working on the post of Driver then his age should not be more than fifty years.”.</p>
--	--	---	---

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Cooperation Department.